



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1264]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 2005/अग्रहायण 15, 1927

No. 1264]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 6, 2005/AGRAHAYANA 15, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2005

का.आ. 1715(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के थुथुकुदी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 114.400 कि.मी. से 119.400 कि.मी. मदुरई-कन्याकुमारी सेक्शन तक के भूखण्ड, जिसमें बाईपास भी सम्मिलित है, का निर्माण करने (चार लेन का बनाने), अनुस्क्षण, प्रबंधन और प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला राजस्व अधिकारी, कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय, कलेक्टरी, जिला थुथुकुदी, तमिलनाडु को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेप को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे उक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा उनका निरीक्षण किया जा सकता है ।

## अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में थुथुकुदी जिले के कोविलपट्टी तालुक में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के 114.400 कि.मी. से 119.400 कि.मी. पर अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त वर्णन ।

क्र.सं.	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
1	2	3	4	5	6	7
1	कोविलपट्टी	अकिलंदापुरम	394/1	ओडई पोरमबोके	राज्य सरकार	720
			447/1	शुष्क	निजी	1540
			447/2	शुष्क	निजी	100
			448/6ए	शुष्क	निजी	256
			448/6बी	शुष्क	निजी	150
			448/7बी	शुष्क	निजी	550
			448/7सी	शुष्क	निजी	900
			448/8ए	शुष्क	निजी	134
			448/8बी	शुष्क	निजी	300
			448/8सी	शुष्क	निजी	400
			448/10ए	शुष्क	निजी	159
			448/10बी	शुष्क	निजी	100
			448/14बी	शुष्क	निजी	240
			448/16ए	शुष्क	निजी	127
			448/16बी	शुष्क	निजी	150
			448/16सी	शुष्क	निजी	1600
			448/17बी	शुष्क	निजी	2336
			454/5	शुष्क	निजी	1553
			454/7	शुष्क	निजी	1320
			454/11ए	शुष्क	निजी	5730
			455/5बी	शुष्क	निजी	2646
			455/6बी 2	शुष्क	निजी	2631
			455/7ए	शुष्क	निजी	768
			455/7बी	शुष्क	निजी	879
			455/7सी	शुष्क	निजी	636
			455/8सी	शुष्क	निजी	1462
			455/10	शुष्क	निजी	1867
			455/11	शुष्क	निजी	1489
			455/12	शुष्क	निजी	1953
			457/2	शुष्क	निजी	1549

1	2	3	4	5	6	7
			457/3	शुष्क	निजी	550
			457/5	शुष्क	निजी	1512
			457/6	शुष्क	निजी	1355
			457/11ए	शुष्क	निजी	589
			457/11बी	शुष्क	निजी	3316
			457/12बी	शुष्क	निजी	1026
			457/12सी	शुष्क	निजी	1175
			458/7बी	शुष्क	निजी	1518
			458/8	शुष्क	निजी	930
			458/9	शुष्क	निजी	233
			459/2	शुष्क	निजी	1022
			459/3	शुष्क	निजी	348
			462/1	शुष्क	निजी	2562
			462/2	शुष्क बंजर मूल्यांकित	राज्य सरकार	2120
			462/3	शुष्क	निजी	1875
			462/4	शुष्क	निजी	961
			462/5	शुष्क	निजी	2850
			462/6बी	शुष्क	निजी	1200
			462/7	शुष्क	निजी	973
			462/8	शुष्क	निजी	785
			462/9	शुष्क	निजी	1487
			530/4	शुष्क	निजी	165
			531	कब्रिस्तान	राज्य सरकार	1108
			539/1	शुष्क	निजी	1462
			539/2ए	शुष्क	निजी	376
			539/2बी	शुष्क	निजी	308
			539/3	शुष्क	निजी	545
			539/4	शुष्क	निजी	545
			539/6ए	शुष्क	निजी	819
			539/6बी	शुष्क	निजी	165
			539/6सी	शुष्क	निजी	748
			539/7	शुष्क	निजी	255
			539/9ए	शुष्क	निजी	1316
			544/1ए	शुष्क	निजी	1026
			544/1'ओ'	शुष्क	निजी	570
			544/2	शुष्क	निजी	2835
			544/3	शुष्क	निजी	2136
			545/1	शुष्क	निजी	576
			545/2	शुष्क	निजी	796

1	2	3	4	5	6	7
			545/7	शुष्क	निजी	460
			547/1सी	शुष्क	निजी	740
			547/1डी	शुष्क	निजी	388
			547/1ई	शुष्क	निजी	372
			547/1एफ	शुष्क	निजी	361
			547/1जी	शुष्क	निजी	460
			547/2	शुष्क	निजी	539
			547/3ए	शुष्क	निजी	1587
			547/6बी	शुष्क	निजी	1493
			547/6सी	शुष्क	निजी	698
			547/6एफ	शुष्क	निजी	537
			547/6जी	शुष्क	निजी	530
			547/6आई	शुष्क	निजी	234
			547/6जे	शुष्क	निजी	230
			547/6एन	शुष्क	निजी	494
			547/7ए	शुष्क	निजी	1010
			547/7बी	शुष्क	निजी	617
			547/8	बैलगाड़ी रास्ता पोरमबोके	राज्य सरकार	414
			548/1ए2	शुष्क	निजी	1800
			548/1ए3	शुष्क	निजी	528
			548/1बी 1	शुष्क	निजी	1298
			548/1बी 2	शुष्क	निजी	1166
			548/2	शुष्क	निजी	3850
			548/3	ओडई पोरमबोके	राज्य सरकार	355
			548/4ए	शुष्क	निजी	500
			548/4बी 1	शुष्क	निजी	687
			548/4बी 2	ग्रामीण सड़क	राज्य सरकार	595
			548/4बी 3	शुष्क	निजी	2190
			549	शुष्क	निजी	1315
			565/10	शुष्क	निजी	400
			566/12	ओडई पोरमबोके	राज्य सरकार	2100
			566/13	शुष्क	निजी	3000
			566/14	शुष्क	निजी	4200
			566/15	शुष्क	निजी	6200
			566/16	शुष्क	निजी	3500
			566/17	शुष्क	निजी	3500
			566/18	शुष्क	निजी	3000
			566/20ए	शुष्क	निजी	900

1	2	3	4	5	6	7
			566/20बी	शुष्क	निजी	800
			566/20सी	शुष्क	निजी	3500
			566/21	शुष्क	निजी	1500
			566/22ए3	शुष्क	निजी	3500
			566/24	शुष्क	निजी	3200
			566/25	शुष्क	निजी	6500
			580/1ए1डी	शुष्क	निजी	500
			580/1ए1एफ	शुष्क	निजी	300
			580/1ए1एच	शुष्क	निजी	200

[ फा. सं. भाराप्र/तक./15/आरआर/एलए/थुथुकुदी (2) ]

प्रभाकर, उप सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

(Department of Road Transport and Highways)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th December, 2005

**S.O. 1715(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for public purpose, the land brief description of which has been given in the Schedule annexed hereto, is required for building (four-laning), maintenance, management and operation of National Highway No.7, including the bypass, on the stretch of land from km 114.400 to km 119.400 of Madurai – Kanniyakumari Section in the District of Thoothukkudi, in the State of Tamil Nadu, hereby declares its intention to acquire such land for the above said purpose;

Any person interested in the land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the District Revenue Officer, Office of the Collector and District Magistrate, Collectorate, Thoothukkudi District, Tamil Nadu, in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner and may, after hearing such objection and after making such further inquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objection;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said act, shall be final.

The plans and other details of the land covered under this notification are available, and can be inspected by the interested persons, at the aforesaid office of the competent authority.

## SCHEDULE

Brief description of land with or without structures to be acquired on National Highway No.7 from km 114.400 to km 119.400 in Kovilpatti Taluk of Thoothukkudi District in the State of Tamil Nadu.

Sl.no	Name of Taluk	Name of Village	Survey No	Nature of land	Type of land	Area of Land in Square Meter
1	2	3	4	5	6	7
1	Kovilpatti	Akilandapuram	394/1	Odal Poramboke	State Govt.	720
			447/1	Dry	Private	1540
			447/2	Dry	Private	100
			448/6A	Dry	Private	256
			448/6B	Dry	Private	150
			448/7B	Dry	Private	550
			448/7C	Dry	Private	900
			448/8A	Dry	Private	134
			448/8B	Dry	Private	300
			448/8C	Dry	Private	400
			448/10A	Dry	Private	159
			448/10B	Dry	Private	100
			448/14B	Dry	Private	240
			448/16A	Dry	Private	127
			448/16B	Dry	Private	150
			448/16C	Dry	Private	1600
			448/17B	Dry	Private	2336
			454/5	Dry	Private	1553
			454/7	Dry	Private	1320
			454/11A	Dry	Private	5730
			455/5B	Dry	Private	2646
			455/6B2	Dry	Private	2631
			455/7A	Dry	Private	768
			455/7B	Dry	Private	879
			455/7C	Dry	Private	636
			455/8C	Dry	Private	1462
			455/10	Dry	Private	1867
			455/11	Dry	Private	1489
			455/12	Dry	Private	1953
			457/2	Dry	Private	1549
			457/3	Dry	Private	550
			457/5	Dry	Private	1512
			457/6	Dry	Private	1355
			457/11A	Dry	Private	589
			457/11B	Dry	Private	3316
			457/12B	Dry	Private	1026

1	2	3	4	5	6	7
			457/12C	Dry	Private	1175
			458/7B	Dry	Private	1518
			458/8	Dry	Private	930
			458/9	Dry	Private	233
			459/2	Dry	Private	1022
			459/3	Dry	Private	348
			462/1	Dry	Private	2562
			462/2	Dry Assessed Waste	State Govt.	2120
			462/3	Dry	Private	1875
			462/4	Dry	Private	961
			462/5	Dry	Private	2850
			462/6B	Dry	Private	1200
			462/7	Dry	Private	973
			462/8	Dry	Private	785
			462/9	Dry	Private	1487
			530/4	Dry	Private	165
			531	Burial Ground	State Govt.	1108
			539/1	Dry	Private	1462
			539/2A	Dry	Private	376
			539/2B	Dry	Private	308
			539/3	Dry	Private	545
			539/4	Dry	Private	545
			539/6A	Dry	Private	819
			539/6B	Dry	Private	165
			539/6C	Dry	Private	748
			539/7	Dry	Private	255
			539/9A	Dry	Private	1316
			544/1A	Dry	Private	1026
			544/1'O'	Dry	Private	570
			544/2	Dry	Private	2835
			544/3	Dry	Private	2136
			545/1	Dry	Private	576
			545/2	Dry	Private	796
			545/7	Dry	Private	460
			547/1C	Dry	Private	740
			547/1D	Dry	Private	388
			547/1E	Dry	Private	372
			547/1F	Dry	Private	361
			547/1G	Dry	Private	460
			547/2	Dry	Private	539
			547/3A	Dry	Private	1587
			547/6B	Dry	Private	1493
			547/6C	Dry	Private	698
			547/6F	Dry	Private	537

1	2	3	4	5	6	7
			547/6G	Dry	Private	530
			547/6I	Dry	Private	234
			547/6J	Dry	Private	230
			547/6N	Dry	Private	494
			547/7A	Dry	Private	1010
			547/7B	Dry	Private	617
			547/8	Cart track poramboke	State Govt.	414
			548/1A2	Dry	Private	1800
			548/1A3	Dry	Private	528
			548/1B1	Dry	Private	1298
			548/1B2	Dry	Private	1166
			548/2	Dry	Private	3850
			548/3	Odai Poramboke	State Govt.	355
			548/4A	Dry	Private	500
			548/4B1	Dry	Private	687
			548/4B2	Rural Road	State Govt.	595
			548/4B3	Dry	Private	2190
			549	Dry	Private	1315
			565/10	Dry	Private	400
			566/12	Odai Poramboke	State Govt.	2100
			566/13	Dry	Private	3000
			566/14	Dry	Private	4200
			566/15	Dry	Private	6200
			566/16	Dry	Private	3500
			566/17	Dry	Private	3500
			566/18	Dry	Private	3000
			566/20A	Dry	Private	900
			566/20B	Dry	Private	800
			566/20C	Dry	Private	3500
			566/21	Dry	Private	1500
			566/22A3	Dry	Private	3500
			566/24	Dry	Private	3200
			566/25	Dry	Private	6500
			580/1A1D	Dry	Private	500
			580/1A1F	Dry	Private	300
			580/1A1H	Dry	Private	200

[F. No. NHA/Tech/15/RR/LA/Thoothukkudi (2)]

PRABHAKAR, Dy. Secy.